

## प्रेस विज्ञप्ति

**सन्तों का कार्य वैभव प्रदर्शन नहीं अपितु ईश्वर का दर्शन कराना है...**

**स्वामी प्रज्ञानन्द, महामण्डलेश्वर**

उज्जैन, ३० अप्रैल: अन्तर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन नई दिल्ली के संस्थापक एवं आवाहन अखाड़ा के महामण्डलेश्वर स्वामी प्रज्ञानन्द ने अपने आशीर्वचन में कहा कि सन्तों का काम वैभव प्रदर्शन करना नहीं है। बल्कि सन्तों का काम है ईश्वर का दर्शन कराना और लोगों को सन्मार्ग का रास्ता बतलाना है।

स्वामी प्रज्ञानन्द प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा दत्त अखाड़ा क्षेत्र में सत्यम शिवम सुन्दरम मेले का अवलोकन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सन्तों का जीवन सात्विक और सादगी पूर्ण होना चाहिए। हमारा काम वैभव प्रदर्शन करना नहीं बल्कि सादगीपूर्ण जीवन यापन कर ईश्वर की साधना करना है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि आसक्ति को खत्म करने से शक्ति और शान्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुम्भ सन्तों के लिए नहीं है किन्तु सन्त जहाँ चले जाते हैं, वहीं कुम्भ बन जाता है।

उन्होंने राजनेता और सन्त में अन्तर बतलाते हुए कहा कि राजनेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लोग उनके नाम के आगे भूतपूर्व लिख देते हैं लेकिन सन्त हमेशा सन्त ही रहता है। उन्होंने बतलाया कि जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी। इसलिए लोगों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारा अन्तःकरण शुद्ध रहे। उन्होंने मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान समाज में सात्विकता का प्रचार कर बहुत अच्छा कार्य रहा है। चैतन्य देवियों की झाँकी का प्रदर्शन आत्म साधना और शक्ति की साधना का प्रतीक है।

आज ही मेले का अवलोकन करने के लिए जूना अखाड़ा के महामण्डलेश्वर द्वय बहन मैत्रेयी गिरी और बहन हेमा सरस्वती भी पधारीं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आदि शक्तियाँ और ईश्वरीय गुण हम सभी के अन्दर विद्यमान हैं। सत्यम शिवम सुन्दरम आध्यात्मिक मेला और चैतन्य देवियों की झाँकी का प्रदर्शन कोई मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है। बल्कि आध्यात्मिक सन्देश देने के लिए किया जा रहा है। इन ब्रह्माकुमारी बहनों को चैतन्य देवियों के रूप में देखकर अपने अन्तःकरण को शुद्ध करें। जो धारण करने लायक गुण हैं उन्हें धारण करें।

प्रेशक: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ई.वि.वि.

ओम शान्ति परिसर, दत्त अखाड़ा क्षेत्र, बड़ नगर रोड, उज्जैन